

प्रेस नोट

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज

दिनांक- अक्टूबर 03, 2020

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ***119 वाहनों का चालान व 11 वाहनों से कुल 10300/-रूपया शमन शुल्क वसूल*** किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

कोरोना वायरस के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर बिना मास्क लगाये घुमने वालों पर तथा सोशल डिस्टेन्सिंग का उल्लंघन करने वालों पर धारा ***188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कुल- 40*** व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी व ***मास्क न लगाने वाले कुल- 145 व्यक्तियों से 14500/- रुपये शमन शुल्क*** वसुला गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से ***कुल- 18 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार*** कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध की गई कार्यवाही:- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए एक अभि0 को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 30 ली0 कच्ची व 46 शीशी नेपाली शराब की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण-

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त रोहित निगम पुत्र कैलाश नि० पड़री थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के कब्जे से *०८ बोतल कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर ***मु०अ०सं०- 474/20, धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम*** का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा० न्या० प्रेषित किया गया ।

गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही-

थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1. हरिकेश पुत्र गोविन्द सा० बसंतपुर थाना घुघली जनपद महाराजगंज 2. संगम सैनी पुत्र कुंवर सा० भरवलिया थाना घुघली जनपद महाराजगंज 3-संदीप पुत्र रमेश जायसवाल सा० बेलवा टीकर थाना घुघली जनपद महाराजगंज 4- उपेन्द्र पटेल पुत्र छोटू सा० कोदइला थाना घुघली जनपद महाराजगंज अभि०गण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर ***मु०अ०सं०- Nil/20, धारा- 3/4 गुण्डा अधि०*** का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा० न्या० प्रेषित किया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए ***कुल-13*** विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 02/03-10-2020 को विभिन्न अपराधों में कुल- 19 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।